

CIN: L74999DL2003GOI118633

#### **RVNL/SECY/STEX/2020**

3<sup>rd</sup> November, 2020

**BSE Limited** 

1<sup>st</sup> Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001

Scrip: 542649

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Scrip: RVNL

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Board Meeting

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith Notice of Board Meeting published by the company in Newspapers (English and Hindi) on 3<sup>rd</sup> November, 2020. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at <a href="https://www.rvnl.org">www.rvnl.org</a>.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Rail Vikas Nigam Limited

(Kalpana Dubey)

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F7396

Encl: as above

SAMTEX FASHIONS LIMITED F-Block, Okhla Phase-1, Delhi-110020 CIN No. - L17112UP1993PLC022479, Website: www.samtexfashions.com

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 c SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereb given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11tl November, 2020 at 3.30 P.M at the Corporate Office at New Delhi, inter-alia, to consider and approve the

WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LTD.

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held or Tuesday, November 10, 2020, to consider approve and take on record, amongst othe business, the Un-audited (Reviewed) Financia Results and Segment-wise Financial Report of the Company for the Quarter and half year ende

of the Company at www.walchand.com and or the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at BSE website at www.bseindia.com and at NSE website at www.nseindia.com

& Company Secretary Place : Mumbai

**OPTIEMUS INFRACOM LIMITED** CIN: L64200DL1993PLC054086 Registered Office: K-20, 2" Floor, Lajpat. Nagar Part-2, New Delhi-110 024 Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Sector-126, Noida, Uttar Pradesh- 201 301 Ph. No. 0120 6726800 | Fax No. 0120-6726895 Email: info@optiemus.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with for the quarter ended September 30, 2020. The said notice may be accessed on the website

of the Company at www.optiemus.com and Stock Exchanges' website at

Vikas Chandra

Company Secretary & Place: Noida (U.P.) Date: November 02, 2020 Compliance Officer

#### TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED Regd.Off: Deoband, District

Saharanpur, Uttar Pradesh-247 554 Corp. Off: 8" Floor, Express Trade CIN: L15421UP1932PLC022174 Email: shares@trivenigroup.com website: www.trivenigroup.com NOTICE

29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 9th November, 2020 inter-alia to consider and take on record Unaudited Financial Results of the Company for the 2nd quarter/half year

ended 30th September, 2020. The intimation of the Board meeting is also available on the Company's website www.trivenigroup.com and also on the websites of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Triveni Engineering & Industries Ltd Geeta Bhalla Date: 02.11.2020 Group VP & Company Secretary

#### & FINANCE LIMITED Regd. Off.: 18, RabindraSarani, Poddar

Court, Gate No.4, 2nd Floor, Room No.17, Kolkata-700001 CIN:L67120WB1987PLC042960

Corporate office at Office no 9, 4th Floor Sadguru Complex, Satellite, Ahmedabad 380015of the Company on Tuesday, 10th November, 2020 at 04.00 P.M. to take on record the Un audited financial result for the quarter and Half year ended 30th

The Said Notice is also available at Company's Website www.goenkabusinessfinancelimited.ir and Stock exchanges website a

www.bseindia.com and www.msei.in For Goenka Business & Finance Limited

Place: Kolkata

SHYAM CENTURY FERROUS LIMITED CIN: L27310ML2011PLC008578

Regd. Office: Vill.: Lumshnong, P.O.: Khaliehriat Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210

Tel: 03655 - 278215/16/18, Fax: 03655-27821 Email: info@shyamcenturyferrous.com,

Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th November, 2020 inter alia to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company

30th September, 2020. Further in terms of the Company's 'Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Designated Persons, the trading window for dealing in the securities of the Company has been already closed for all Directors, Officers, Designated persons and their immediate relatives of the Company w.e.f. 01st October, 2020 till the end of 48 hours after Unaudited Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September,

Exchanges, therefore, Trading Window will reopen on 14th November, 2020. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.shyamcenturyferrous.com and also on the website of the Stock Exchanges where shares of the Company are listed viz., BSE Limited - www.bseindia.com and National

Place: Kolkata

HEXA TRADEX LIMITED REGD. OFF.: A-1, UPSIDC INDL. AREA, NANDGAON ROAD, KOSI KALAN, **DISTT. MATHURA - 281 403** CIN: L51101UP2010PLC042382 NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 10<sup>th</sup> November, 2020 at New Delhi, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the 2<sup>nd</sup> quarter/half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2020.

This Notice is also available on the website of the Company www.hexatradex.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely, at www.bseindia.com and www.nseindia.com for HEXA TRADEX LIMITED

SD/-**PRAVESH SRIVASTAVA** 

**COMPANY SECRETARY** ACS: 20993 Place: New Delhi

Date:02nd November, 2020



Regd. Office: Valuable Techno Park, Plot #53/1, Road #7, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400093, India. Tel: +91 22 40305060 Fax: +91 22 403051

Email - investors@ufomoviez.com Website: www.ufomoviez.com NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (hereinafter referred to as "Listing Regulations"), a meeting of the Board Directors of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020 a Mumbai, inter-alia to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 prepared in accordance with the IND-AS.

Pursuant to the Company's Code Conduct to Regulate, Monitor and Report rading by Designated Persons, the trading window for dealing in the securities of the Company had been closed from October 1, 2020 for all the Designated Persons of the Company and the same will continue to remain closed till November 14, 2020 (both days inclusive).

The said intimation is also available or the website of the Company a www.ufomoviez.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For UFO Moviez India Limited

Place: Mumbai Sameer Chavan Date: November 02, 2020 Company Secretary

SHALIMAR PAINTS LIMITED CIN: L24222HR1902PLC065611

Regd Office: Stainless Centre, 04th Floor, Plot No.50, Sector-32, Gurugram, Haryana-122001 Website: www.shalimarpaints.com, e-mail: askus@shalimarpaints.com

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. that the meeting of the Board of Directors of Shalimar Paints Limited ("Company") will be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financia Results of the Company for the Quarter and half year ended September 30, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.shalimarpaints.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) respectively. For Shalimar Paints Limited

Dated: November 02, 2020

Place: Gurugram Company Secretary

#### KAMAR CHEMICAL & INDUSTRIES LTD CIN: U24117TN1981PLC008681

Telephone No.044 24991518; e-mail: kamarchemicals@gmail.com

INFORMATION REGARDING THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM OF KAMAR CHEMICAL & INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM). NOTICE FOR UPDATION OF EMAIL ID AND BANK DETAILS

 The 38th Annual General Meeting ("AGM") of Kamar Chemical & Industries Limited will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and General Circulars Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020 and 20/2020 dated 5th May 2020 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), (collectively referred to as the "relevant circulars") to transact the business as will be set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM only through VC/OAVM, the details of which will be given in the Notice of the 38th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

2. Members may please note that in compliance with the relevant

In case the Shareholder's email ID is already registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), M/s Cameo Corporate Services Ltd or with their Depositories, the Annual Report and the log-in details for e-voting will be sent to their registered e-mail address.

and / or not updated their Bank Account mandate, the following instructions are to be followed:

a. Please click on the following link of our RTA - Cameo Corporate Services Ltd: https://investors.cameoindia.com fill in the details

 b. In case of shares that are held in Demat mode, the Shareholders may contact their Depository Participant ("DP") and register their e-mail address and bank account details in their demat account as per the procedure advised by their DP.

c. The Cut-off-date to ascertain the names of the shareholders for dispatch of the 38th AGM Notice and the 38th Annual Report of the Company is 8th November, 2020, 5 P.M.

For Kamar Chemical & Industries Limited Syed Meeran Dated: 03-11-2020

# LIBERTY SHOES LIMITED

Place: Chennai

CIN: L19201HR1986PLC033185 Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Dist. Karnal - 132114, Haryana

Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram-122002, Haryana Tel.: (+91) 0124-4616200, Fax: (+91) 0124-4616222

E-mail: investorcare@libertyshoes.com Website: www.libertyshoes.com

## NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, 9th November 2020 to inter alia consider and approve the Un-audited financial results of the Company for the 2nd Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

This information is also available on the Company's website i.e. www.libertyshoes.com and also on the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com and BSE Limited - www.bseindia.com

For Liberty Shoes Limited

Place: Gurugram, Haryana Date: Monday, 2nd November 2020

CS Munish Kakra CFO & Company Secretary



## MOSCHIP TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as MosChip Semiconductor Technology Limited) Regd. Office: Plot No.83 & 84, 2<sup>rd</sup> Floor, Punnaiah Plaza, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India, CIN: L31909TG1999PLC032184 Email: investorrelations@moschip.com; www.moschip.com Phone:+91-040-66229292, Fax:+91-040-66229393

### NOTICE OF 21" ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 21"Annual General Meeting ("AGM") of MosChip Technologies Limited ("the Company") will be held on Friday, the 27" day of November 2020 at 10.30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means("OAVM"), to transact the business set out in the Notice dated 15" October, 2020 ("the

The AGM convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ["Act"] read with circular dated 08" April, 2020 and 05" May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circular dated 12" May, 2020, without the physical presence of the members at a common venue.

The MCA and SEBI has permitted listed Companies to send the Notice of AGM and Annual Report during the calendar year 2020 only by email to shareholders in view of the prevailing Covid-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatch of physical copies. The Notice of AGM together with Annual Report will be sent to the shareholders electronically to the email ID's registered by them with the depository participant/Company. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ["Act"] read with Rule 10 of Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th November, 2020 to Friday, 27th November, 2020 (both days inclusive) on account of the AGM. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting during AGM would be provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose

#### of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Mannerof registering/updating email addresses:

\* Shareholders holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID's with the Company are requested to register / update their email ID with the Company at Investorrelations@moschip.com or with KFintech Technologies Private Limited at einward.ris@kfintech.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email ID with their

respective Depository Participant. Process for those shareholders whose email IDs are not registered with depositories for procuring user id and

password and registration of email ID's for e-voting for the resolutions set out in this notice. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) by email to Investorrelations@moschip.com.

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLIENT ID (16 digit DPID + Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy) by email to Investorrelations@moschip.com.\ Alternatively member may send an email request to evoting@nsdl.co.in for obtaining user id and password by

providing the details mentioned in point (1) or (2) as the case may be. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members are requested to go through the Notes set out in AGM Notice and in particular, instructions for joining the

AGM, manner of casting vote through Remote e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/OVAM.

CS Suresh Bachalakura Company Secretary

रेत विकास निमम तिमिटेड Rall Vikas Nigam Limited युक्ता, बाति एवं बारदर्शिता

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi. South Delhi- 110066, CIN: L74999DL2003G0I118633

Email: investors@rvnl.org Phone No.: 011-26738299. Fax: 011-26182957

Kalpana Dubey

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020, through video conferencing to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the guarter and half year

Further, pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure Period has commenced from 1st July, 2020 and will end 48 hours after the financial results are made public

The intimation contained in this notice is also available on website of the Company at www.rvnl.org and website of stock exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Rail Vikas Nigam Limited Place: New Delhi

Date: 02.11.2020 Company Secretary & Compliance Office

**XCHANGING SOLUTIONS LIMITED** (a DXC Technology Company) CIN: L72200KA2002PLC030072 Registered Office: Kalyani Tech Park - Survey No 1, 6 & 24,

Kundanhalli Village, K R Puram Hobli, Bangalore – 560066, Karnataka, India **Tel:** +91-8043640000 Email: compliance@xchanging.com Website: www.xchanging.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of Xchanging Solutions Limited is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 inter alia, to consider and approve the unaudited standalone & consolidated financial results of the Company for the 2nd quarter and six months ended September 30, 2020 and to transact other business items as set out in the agenda

This information is available on the website of the Company http://www.xchanging.com/investor-relations/xsl-content and also on the website of Stock Exchanges www.nseindia.com (National Stock Exchange of India Limited) and www.bseindia.com (BSE Limited), where the shares of the Company are listed

By order of the Board of **Xchanging Solutions Limited** 

Aruna Mohandoss

Place: Chennai (Company Secretary)



Dated: November 02, 2020

Gautam

## S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044: Email: investors@schandgroup.com S.CHAND Website: www.schandgroup.com: Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801: CIN: L22219DL1970PLC005400

#### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended

The said information is also available on the Company's website at www.schandgroup.com and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For S Chand And Company Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Jagdeep Singh

Place: New Delhi Dated: November 02, 2020

KALYANI FORGE LIMITED

CIN: L28910MH1979PLC020959 Kalyani Forge Ltd Registered Office: Shangrila Gardens, C Wings, 1st Floor, Opp. Bund Garden, Pune-411001, Maharashtra File Number : A10098-01

#### E-mail: companysecretary@kforge.com Tel: +91 020 26167645 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) (a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10" November, 2020 through "Video Conferencing Mode" at 03.00 p.m. to inter alia consider the following business:

 To take on record the un-audited Financial Results for the guarter and half year ended on September 30, 2020.

 To take on record Limited Review Report by the Statutory Auditors for the Financial Results of the Company for the guarter and half year ended on September 30, 2020.

The above details of Board Meeting are also available on the websites of:

The Company viz (www.kalyaniforge.co.in)

 The BSE Limited (www.bseindia.com) The NSE Limited (www.nseindia.com)

For KALYANI FORGE LIMITED Place: Pune Rohan Deshpande Company Secretary Date: 3<sup>rd</sup> November, 2020

## SHARP INDIA LIMITED

Regd Office: Gat No. 686/4, Koregoan Bhima, Taluka Shirur, Dist: Pune - 412216. Phone No.: 02137-252417, Fax No.: 02137-252453 Website: www.sharpindialimited.com

> CIN: L36759MH1985PLC036759 NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) read with Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Sharp India Limited will be held through video conference on Tuesday, 10th November 2020 inter alia to approve the unaudited Financial Results of the Company for the guarter and Six months ended on 30th September 2020.

The information contained in this notice is also available on the website of our company-www.sharpindialimited.com and the website of the Stock Exchange-- www.bseindia.com

Place: Koregoan Bhima Date: 03/11/2020

For Sharp India Limited Chandranil Belvalkar Company Secretary

## TRITES

RITES LIMITED (A Govt. of India Enterprise) CIN: L74899DL1974GOI007227 Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of RITES Limited is scheduled to be held on Tuesday, the 10" day of November, 2020 to consider inter-alia unaudited consolidated and standalone financial results for the guarter and half year

In this connection, kindly note that, pursuant to Company's Code of Conduct framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015 ('the code'), Trading Window for dealing in shares of the Company for persons specified under the code has already been closed from Thursday, October 01, 2020 upto 48 hours from the date of declaration of unaudited guarterly financial results for the guarter ended on September 30, 2020. This information is also available on the website of the company viz. www.rites.com and on the

website of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com Ashish Srivastava Date: 02.11.2020

Company Secretary & Compliance Officer

## M Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Village-Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil-Chomu. Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India. Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952

#### NOTICE OF BOARD MEETING Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company

will be held on Tuesday, November 10, 2020 at 1.30 P.M. through Video

Conferencing, inter alia, to consider and approve the un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the guarter and half year ended on September 30, 2020 along with the Statement of Assets and Liabilities as on that date and Cash Flow Statement for the half year ended on September 30, 2020 and to take on record Limited Review Report thereon.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.mayuruniquoters.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

By the Order of the Board For Mayur Uniquoters Limited

Date: November 02, 2020 Place: Jaipur

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS33135

# JD ORGOCHEM LIMITED

CIN: L24100MH1973PLC016908 Registered Office: 301, Sumer Kendra, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400 018 Tel No.: +91 22 3042 3048 +Fax No.: +91 22 3042 3434 Website: www.jdorgochem.com .e.-mail ld: investor.relations@jdorgochem.com

### NOTICE OF 04/2020-21 BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29, 33 and 47 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that 04/2020-21 Board Meeting of JD Orgochem Limited is scheduled to be held on Tuesday, 10th November, 2020 at 12.00 Noon at the Registered office of the Company at 301, Sumer Kendra, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half financial year ended 30" September, 2020. Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

read with Company's Code of Conduct for regulating and reporting trading by Insiders and for Fair Disclosure, 2015 and in accordance to our earlier communication to you dated 30th September, 2020 it was intimated that the Trading Window for dealing in Equity Shares of the Company shall remain closed from Thursday, 01<sup>st</sup> October, 2020 till the conclusion of 48 hours after the declaration of the Financial Results of the Company for the guarter and half financial year ended 30" September, 2020. Accordingly, you may note that the Trading window shall remain closed till Thursday, 125 November, 2020 and shall re-open on Friday, 13" November, 2020

This information is also available on the website of the Company at www.jdorgochem.com/Statutoryinformation.html and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For JD ORGOCHEM LIMITED Mayur Kanjibhai Rathod Place: Mumbai Company Secretary and Compliance Officer

Membership No. A49756



Date: 02" November, 2020

## JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED

CIN: L24114MH1985PLC035564 Registered Office: 301, Sumer Kendra, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400 018 Tel No.: +91 22 3042 3048 +Fax No.: +91 22 3042 3434

Website: www.jaysynth.com •E-mail Id: jsec@jaysynth.com NOTICE OF 04/2020-21 BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29, 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that 04/2020-21 Board Meeting of Jaysynth Dyestuff (India) Limited is scheduled to be held on Thursday, 12" November, 2020 at 12.00 Noon at the Registered Office of the Company at 301, Sumer Kendra, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018 inter - alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half financial year ended 30" September, 2020.

Further, pursuant to the Code of Practices and Procedures for Fair Disclosures and Conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons and immediate relatives of Designated Persons and the SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and in accordance to our earlier communication to you dated 30" September, 2020, it was intimated that the Trading Window for dealing in Equity Shares of the Company shall remain closed from Thursday, 01" October, 2020 till the conclusion of 48 hours after the declaration of the Financial Results of the Company for the quarter and half financial year ended 30" September, 2020. Accordingly, you may note that the Trading window shall remain closed till

Saturday, 14" November, 2020 and shall re-open on Sunday, 15" November, 2020. This information is also available on the website of the Company at http://jaysynth.com/StatutoryInformation.html and on the website of BSE Limited i.e

Place: Mumbai Date: 02<sup>rd</sup> November, 2020

www.bseindia.com

For: Jaysynth Dyestuff (India) Limited Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

## FINE ORGANIC INDUSTRIES LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS FINE ORGANIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED) Reg off: Fine House, Anandji street, off M G Road, Ghatkopar (East), Mumbai 400 077. CIN: L24119MH2002PLC136003 Email: info@fineorganics.com; Web: www.fineorganics.com, Tel.: +91 (022) 21025000, Fax: +91 (022) 21028899

Extract of Standalone and Consolidated Results for the Quarter and six months period ended 30" September 2020 (₹ in Lakhs) Consolidated Standalone

Quarter ended | Six months ended | Quarter ended | Quarter ended | Six months ended | Quarter ended No. **Particulars** 30" September 30" September 30" September 30" September 30" September 30" September 2020 2020 2020 2019 2020 2019 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total Income from Operations 26,581.11 50,141.45 27,437.65 27,098.14 51,099.59 27,401.89 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 3,980.46 8,011.60 6,386.20 4,165.57 8,224.37 6.226.32 Net Profit / (Loss) for the period before Tax 8,224.37 4,165.57 6,226.32 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3.980.46 8,011.60 6,386.20 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 2,947.00 5,803.86 3,121.58 5,985.05 5,703.49 5,870.22 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)] 3,026.88 5,910.73 5,826.37 3,201.46 6.091.92 5,659.64 1,533.00 1,533.00 1,533.00 1,533.00 1,533.00 1,533.00 6 Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 5 each) Earnings per equity share (Face Value of ₹5 each) for continuing and discontinued operations Basic: (Not annualised) 9.61 18.93 19.15 10.18 19.52 18.60 9.61 18.93 19.52 18.60 2. Diluted (Not annualised) 19.15 10.18

#### a The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 02<sup>rd</sup> November 2020. b The above is an extract of the detailed format of Standalone and consolidated unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of

Dated: 02<sup>rd</sup> November 2020

the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 02" November 2020. The full format of the Statement of Standalone and consolidated unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.fineorganics.com) and on the websites of National Stock exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE

Limited (www.bseindia.com) For and on behalf of the Board of Director **Managing Director** Place : Mumbai

(Mukesh Shah)

FINE ORGANICS

DIN: - 00106799

Adfactors 594

Date: 02.11.2020 financialex r.in

Regd. Office: Plot No.163, Udyog viner, Cleater Noida, 201308, Distt. Gautam Buddha Nagar, U.P. Prime Tower, Phone: 01149025972, E-mail: samtex.compliance@gmail.com

Standalone and Consolidated Unaudited Financia Results of the Company for the second quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020. For SAMTEX FASHIONS LIMITED Place : New Delhi ATUL MITTAL Date: 02.11.2020 (Chairman & Managing Director

Regd. Off.: 3, Walchand Terraces. Tardeo Road, Mumbai - 400034. CIN: L74999MH1908PLC000291. Tel: (022)23612195 Fax: (022) 23634527 E-mail: investors@walchand.com Website: www.walchand.com NOTICE

The intimation is also available on the website

For Walchandnagar Industries Ltd. G. S. Agrawal Vice President (Legal & Taxation)

optiemus

Date : November 01, 2020

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 10" day of November, 2020, inter alia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results

www.bseindia.com and www.nseindia.com. By order of the Board Optiemus Infracom Limited

owers, 15-16, Sector 16A, Noida-201301 Notice is hereby given pursuant to Regulation

**GOENKA BUSINESS** 

Email ID.: goenkabusiness1987@gmail.com NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED will be held at the

September, 2020.

**Dharmik Solanki Company Secretary** Dated: 02/11/2020

investors@shyamcenturyferrous.com Website: www.shyamcenturyferrous.com NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

for the second guarter and half year ended 2020 are approved and filed with the Stock

Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. For Shyam Century Ferrous Limited

> Place: Hyderabad Neha Agarwal Date: 02/11/2020 Company Secretary

Registered Office: No.4. Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai 600004.

circulars, the 38th Annual Report of the Company, for the Financial year 2019-20, containing therein the Notice for the 38th AGM, the Directors' Report and the Auditors' Report and the Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2020 and other documents required to be annexed / attached thereto, will be sent to the members of the Company at their e-mail address registered with the Company or with their Depository Participants. Manner of registering / updating e-mail address and Bank Account details:

In case the Shareholder has not registered his or her or their e-mail address with the Company or with the RTA or with their Depositories.

LIBERTY

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि सेबी (सचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 09 नवम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को तिमाही और छमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा कथित सचना एवं वित्तीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.achalinvest.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी नेहरु प्लेस नई दिल्ली डीएल 110019 इन

अचल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड हस्ता/-

प्रदीप कुमार पूर्णकालिन निर्देशक

DICIM

LIMITED

कोनः 011-41539170, वेक्साइटः www.dcm.in ई-मेसः investors@dom.in

रेगलेशन्स, 2015, समय-समय पर संशोधित, के विनियमन 47 के अनुपालन में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को, अन्य मामलों के साथ साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त दूसरी तिमाडी और छमाडी के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन और रिकॉर्ड पर लेने के लिए आयोजित की जाऐगी।

तिथि : 03.11.2020 (www.dcm.in) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगी। कृते बीसीएम लिमिटेड हस्ता/-विगल प्रसाद गुप्ता

स्थानः विल्ली तिवि 02.11.2020

> सीआईएन नं.: L74899DL1974GOI007227 पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092 सचना

स्थान : नई दिल्ली

अनुसरण में एतदहारा सुचित किया जाता है कि राइटस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2020. मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साध-साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा

कंपनी की आंबरण सहिता के अनुसरण में सहिता में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए कंपनी ने शेवरों के लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडों गुरूवार 01 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा की तारीख से 48 घण्टों तक पहले ही बंद कर दी है।

यह सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.rites.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते राइट्स लिमिटेड

पंजी. कार्या. : बी-09, 412, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088 Tel.: 011-45058963, Email: brilliantportfolios@gmail.com CIN: L74899DL1994PLC057507 सूचना सेबी (सूचीब्द्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 29 व 47 के

अनुपालन में एतददारा सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, अनुमोदन के साथ–साथ रिकॉर्ड में लेने के लिए गुरुवार, 12 नवंबर, 2020 को सुबह 10.00 बर्जे आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। यह सूचना कंपनी की वेबसॉइट www.brilliantportfolios.com और www.bse india.com पर बीएसई लिमिटेड पर स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02 11 2020

#### नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड CIN: L65993DL1970PLC146414

पंजीकृत कार्यालय : 28. नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डरिट्यल एरिया, नई दिल्ली-110015 फोन नं. (011) 45021854, फैक्स नं. (011) 45021982 ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के रेग्युलेशन 29 के अनुसार सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 स्थित कम्पनी के शाखा कार्यालय में होगी जिसमें, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हुई द्वितीय तिमाही व छमाही के बिना अंकेक्षित किए स्टैंडअलोन व कन्सोलिडेटिड वित्तीय खातों का आंकलन किया जाएगा यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

थे : 2 नवम्बर, 2020

**पंजीकृत कार्यालयः** प्रधम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110066 सीआईएनः L74999DL2003GOI118633, ईमेलः investors@rvnl.org **फोन नं** .: 011-26738299, फैक्स: 011-26182957

कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी

(अजय वि

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियमन')

विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29, 33 के अनुसरण में, एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 11 नवम्बर, 2020** को, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन करने, तथा उसे रिकॉर्ड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी "पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता" के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि 01 जुलाई, 2020 से आरंभ

हो चुकी है तथा 11 नवम्बर, 2020 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद समाप्त यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02.11.2020

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



## शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीबाईएन : L24222HR1902PLC065611 **पंजीकृत कार्यालय** : स्टेनलेस सेंटर, चतुर्थ तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरुग्राम, (हरियागा)-122001 वेक्साइट : www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

एतदहारा सूचीत किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि शालीमार पेंट्स लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें,

अन्य विषयों के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को तमाप्त तिमाही / अर्द्ध वर्ष हेत् कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे। इस सूचना में दी गई जानकारी कन्पनी की वेबसाइट नामतः www.shalimarpaints.com तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स नामतः बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट्स पर

भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं। वास्ते शालीमार पेंट्स लिमिटेड तिथि : 02 नवम्बर, 2020 कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : गुरुग्राम

शैक्षिक संचार संकाय



आईयूएसी कैम्पस, अरुणा आसफ् अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 दूरमाष : 011-24126418-19-20, फैक्स : 011-24126416 वेबसाइट : www.cec.nic.in निविदा सं.: सीईसी / एएमसी लोक निर्माण कार्य / 2020-2021

## शैक्षिक संचार संकाय में 2020-2021 के दौरान सिविल मरम्मत, देखभाल एवं छोटे सिविल कार्य के

एएमसी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र उपरोक्त पते पर एएमसी के तहत सिविल मरम्मत, देखभाल एवं छोटे सिविल कार्य हेत् पंजीकृत सिविल कॉन्ट्रैक्टर/

'निदेशक, शैक्षिक संचार संकाय' के नाम नई दिल्ली में देय अग्रिम जमा राशि रु. 25,000 /- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड डाफ्ट एक अलग लिफाफा में रखें जिसके ऊपर निविदा संख्या लिख दें। अलग लिफाफे में डिमांड ड्राफ्ट समेत संपूर्ण निविदा दस्तावेज लिफाफा में सीलबंद कर उसके ऊपर 'शैक्षिक संचार संकाय परिसर में सिविल मरम्मत, देखभाल एवं छोटे कार्य के एएमसी की निविदा' लिखें और **''मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,** शैक्षिक संचार संकाय, आईयूएसी कैम्पस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067" पर इस तरह भेजें कि 23.11.2020 दोपहर 3.00 बजे या उससे पहले पहुंच जाए। प्राप्त निविदाएं

उसी दिन दोपहर 3.30 बजे शैक्षिक संचार संकाय में खोली जाएंगी। शैक्षिक संचार संकाय को किसी या सभी निविदाओं को कोई कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 विकेजे इन्फ्रडिवेलपरस लिमिटेड [कंपनी (निजमन) नियम, 2014 के iजीकृत कार्यालय : बी–32,यू/जी/एफ/बी/एस/ नियम ३० के अनुसरण में] ऑफिस नं. 1, 1 तल, सुभाष चौक, नियर हीरा स्वीट्स, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य

से दूसरे राज्य में बदलने के लिए

केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) कंपनी अधिनियम २०१३ और कंपनी

(बिजमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम

(5) के खंड (अ) के मामले में

दुकराल इंडरिट्यल इंवेस्टमेंटा प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1417, देविका टॉवर, 6

आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में

रथानांतरित करने के लिए तारीक 02, नवम्बर, 2020

को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन मे

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत दर्ज कर सकता है या

एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके

विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सुचना के प्रकाशन

की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल,

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर

सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके

कृते की ओर से

मदन लाला दुकराल

**डीआईएन** : 00835081

वई दिल्ली -110048

एस-121, बोटर कैलाश पार्ट-॥,

हस्ताः./-

उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा ।

संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

CIN: L45400DL2010PLC200014 एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 09 नवम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को तिमाही और छमाही के लिए लेखापरीक्षित विशीय परिणामों पर विचार एवं

अनमोदन किया जाएगा। कथित सचना एवं वित्तीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.vkjinfra.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते विकेजे इन्फ्रिडिवेलपरस लिमिटेड

हस्ता/-स्थान : दिल्ली अगस्टीन कंक्स्प दिनांक : 02.11.2020

क्वाड इस्पात लिमिटेड गंजीकत कार्यालय : ऑफिस न : 208, 2 फ्लॉर, प्लॉट नं. ए—1, मधुबन टॉवर, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली—110092 CIN: L27109DL1985PLC021183

। सुचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण एवं प्रकटन आवश्यकृताए) विनियम्, 2015 है विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निर्देशक् मंडल की बैठक सोमैदार, 09 नवम्बर, 2020 की कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को तिमाही और छमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनमोदन किया जाएगा। कथित सुबना एवं वितीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.hindispat.com और स्टॉक एक्सकेंज

वुकराल इंडरिट्यल इंवेस्टमेंदा प्राईवेट लिमिटेड कृते क्वाड इस्पात लिमिटेड हस्ता/-विनया प्रकाश निर्देशक स्थान : नई दिल्ली जिदेशक दिनांक : 02.11.2020

वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

ऑप्टीमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड सीआईएन: L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालयः के-20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर पार्ट-2. नई दिल्ली-110024 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट सं. 2ए, प्रथम तल, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 दूरभाष: 0120-6726800, फैक्स: 0120-6726895, ई-मेलः info@optiemus.com

सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29(1)(ए) एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी। कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.optiemus.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से एक्सेस की जा सकती है। बोर्ड के आदेशानुसार

तिथि: 2 नव.2020 विकास चन्द्रा कम्पनी सचिव स्थानः नोएडा (उ.प्र.) एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं.: 22263

ऑप्टीमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड



पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 (CIN:L45101DL1979PLC009654)

वेबसाईटः www.acilnet.com, ई-मेलः cs.corpoffice@acilnet.com

सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 29 के अनपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2020 को वर्च्यअल/विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा पंजीकृत कार्यालय ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 सित. 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षित द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा के अन्य मदों, यदि कोई हो, पर विचार किये जाएंगे।

अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ( इंडिया )लि. के लिये स्थानः नई दिल्ली तिथि: 2.11.2020 विपिन कुमार तिवारी कम्पनी सचिव

अलीरॉक्स एब्रेसिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 4 सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-11000<sup>-</sup> CIN: L74899DL1944PLC000759

टेली : +91-11-23457100; फैक्स : +91-11-23324136 ई-मेल : snccil@dalmiarf.com वेबसाईट : www.alirox.com

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को सामप्त तिमाही के लिये कम्पनी के स्टैण्डएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईटः www.alirox.com तथा साथ ही मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अलीरॉक्स एब्रेसिट्स लिमिटेड के लिंह

स्थान : नई दिल्ली

### अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड

CIN: L67120HR1980PLC039125 कार्यालयः प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003 फोन: 0124-4556677

ईमेल: info@aravalisecurities.com वेबसाईट: www.aravalisecurities.com

भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा अन्य लागू होने वाले विनियमन, यदि कोई हो, के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नव., 2020 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के लिए हस्ता./ रुचि श्रीवास्तव

स्थानः गुरुगाँव तिथि: 2.11.2020 कम्पनी सचिव

## TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh-247 554 Corp. Off: 8" Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida-201301 CIN: L15421UP1932PLC022174 Email: shares@trivenigroup.com

website: www.trivenigroup.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 9th November, 2020 inter-alia to consider and take on record Unaudited Financial Results of

the Company for the 2nd quarter/half year ended 30th September, 2020. The intimation of the Board meeting is also available on the Company's website

www.trivenigroup.com and also on the websites of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). For Triveni Engineering & Industries Ltd.

Geeta Bhalla दिनांक: नवम्बर 02, 2020 Date: 02.11.2020 Group VP & Company Secretary स्थानः नई दिल्ली

डीसीएम फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

CIN: L65921DL1991PLC043087 पंजी. कार्यालयः डी 7/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020, टेली. : 011-26387750, ईमेल आईडीः info@dfslonline.com वेबसाईट : www.dfslonline.com

सेबी (एलओडीआर) विनि. 2015 के विनि. 47 के अनपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक बधवार. 11 नवम्बर. 2020 को 4.00 बजे अप में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे निम्न मामलों पर विचार किये जाएंगेः

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अनमोदन:

. 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये ''वार्षिक साधारण सभा की सूचना'' तथा ''बोर्ड की रिपोर्ट'' के प्रारूप का अनुमोदन: वार्षिक साधारण सभा में ई-वोटिंग तथा वोटिंग के द्वारा

मतदान का संचालन करने के लिये पर्यवेक्षक की नियक्ति का अनमोदनः ''सदस्यों के रजिस्टर'' को बंद करने की तिथि (बुक

क्लोजर अवधि) पर विचार तथा निर्णय; . ई-वोटिंग सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये ''कट-ऑफ तिथि" का निर्धारण: वार्षिक साधारण सभा के लिये ''ई-वोटिंग अवधि'' का

हम कम्पनी के ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ई–मेल पते तथा सम्पर्क नं. अभी तक पंजीकत नहीं कराये हैं, से अनुरोध करते हैं कि हमारे आरटीए मै. एमसीएस शेयर टान्सफर एजेन्ट लिमिटेड helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल भेजकर तत्काल उसे पंजीकृत करा लें तथा info@dfsonline.com पर कम्पनी को उसकी एक प्रति मार्क करें। कपया ध्यान रहे कि अपडेशन के लिये अनरोध अधिकतम

30 नवम्बर, 2020 तक भेजी जाएगी। अधिक विवरणों के लिये कृपया वेबसाईट www. dfslonline.com तथा स्टाक एक्सचैंजों की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध सूचना देखें। डीसीएम फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता. शान्तनु देवेश्वर स्थानः नई दिल्ली पूर्ण-कालिक निदेशक तिथि: 02.11.2020

DIN: 08268523

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड CIN: L74899DL1995PLC066194 पंजी. कार्यालयः 218-222, अग्रवाल प्रेस्टीज माल, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी सेन्टर, रोड नं. 44 पर, पीतमपरा, दिल्ली-110034,

वेबसाईटः : www.neerajpaper.com E mail: mansi@neerajpaper.com Landline: +91-11-47527700

रतदद्वारा सचित किया जाता है कि सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनपालन ों कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवं. 2020 को 11.30 बजे पूर्वा. में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे। इस उद्देश्य से इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिए आचार संहिता के अंतर्गत आबद्ध निदेशक/ अधिकारी/ विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/ प्रवर्त्तक के लिए बीएसई में विधिवत दाखिल पत्र तिथि 30.9.2020 के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 1 अक्टू. 2020 से उक्त बोर्ड बैठक की पूर्णता के 48 घंटे बाद तक बंद है।

इस सूचना का विस्तृत विवरण कंपनी की वेबसाईट www.neerajpaper.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है। नीरज पेपर मार्केटिंग लि. के लिए

(मानसी)

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड सीआईएन : L17300DL1995PLC107286 पंजी. कार्यालय : ए-48. वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

फोनः 011-27373622; ई—मेलः srusteels@yahoo.in वेबसाईट: www.srusteels.in

तिदुद्वारा सुचित किया जाता है कि सेवी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पंडित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को ए-48, पहली मॉजिल वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें निम्नलिखित लेन-देन व्यवसायों के लिए अंतर।

क. 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामें को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के

ख. कुर्सी को अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय। उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार सहिता के संदर्भ में. टेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि गुरूबार, अक्टूबर 01, 2020 से कंपनी की प्रतिभृतियों में सौदा करने के लिए अड़तालीस(48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख तक) स्टॉक एक्सचॅज

को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तदनुसार, व्यापारिक विंडो **गुरूवार, अक्टूबर ०**1, 2020 से शुक्राबार, नवम्बर 13, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित ) तक बंद रहेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srusteels.in तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एसआरय स्टील्स लिमिटेड

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : नई दिल्ली विनांक : नवम्बर 02, 2020



## एपिस इंडिया लिमिटेड पंजी, कार्यालय: 18/32, ईस्ट पटेल नगर,

नई दिल्ली-110008 टेली: 011-43206650 | फैक्स: 011-25713631 ईमेल: mail@apisindia.com वेबसाइट: www.apisindia.com

सूचना

एतदृद्वारा सृचित किया जाता है कि सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) बिनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरूबार, 12 नवम्बर 2020 को 18/32, ईस्ट पर्टेल नगर, नई दिल्ली-110008 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, में निम्नलिखित व्यवसायों के लेन-देन पर विचार विमर्श किया जाएगा। क. 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और

छमाही के लिए कंपनी के अनुअकेक्षित वित्तीय परिणामें (स्टैंडअलोन और समेकित) को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए। कर्सी की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय के उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइंडर ट्रेडिंग

की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, टेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि गुरूवार, अक्टूबर 01, 2020 तक कंपनी की प्रतिभृतियों में सौदा करने के लिए अडतालीस(48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख) पोस्ट एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तृत किया जा चुका है। उक्त स्चना कम्पनी की वेबसाइट

बीएसडे लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एपीस इंडिया लिमिटेड इस्ता .

www.apisindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे

अमित आनंद ( प्रबंध निदेशक ) डीआईएन: 00951321 पंजी. कार्यालय : ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां,

जिला मथुरा – 281403 सीआईएन : L51101UP2010PLC042382 एतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 वे विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली व आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों व साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त दसरी तिमाही छमाही हेतू कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hexatradex.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com तथ www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

> हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड के लिए प्रवेश श्रीवास्त एसीएस : 2099: 02 नवंबर, 2020

लैण्डमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेन्ट कम्पनी लि.

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः www.landmarkproperty.in. टेलीफोन नं. (011) 43621200, फैक्स नं. 41501333

ई-मेलः info@landmarkproperty.in, CIN: L13100DL1976PLC188942 सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020

को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित

वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किये जाएंगे। यह सुचना कम्पनी की वेबसाईट तथा स्टॉक एक्सचैंजों (जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं) की वेबसाईट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेन्ट कम्पनी

लिमिटेड के लिये हस्ता./ अंकित भाटिया स्थानः नई दिल्ली तिथि: 2.11.2020 कम्पनी सचिव

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम **30 के अनुसार**] कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामले ान्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र भारत के **सम**क्ष

कम्पना अधिनयम, 2013 को धारा 13(4) ए

कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(क) के मामले में क्रीम वे डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के मामले

में, जिसका पंजीकृत कार्यालय **सम्पत्ति सं. सी**-64 ई. श्री चंद पार्क, मटियाला, उत्तम नगर, नई दिल्ली पर है। ....याचिकाकर्ता एतद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता ह कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार के समक्ष

आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से ''पंजाब राज्य'' मे स्थानान्तरित करने के लिए 5 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

सम्पत्ति सं. सी-64 ई, श्री चंद पार्क, मटियाला, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059

कृते एवं हिते क्रीम वे डेयरी प्राइवेट लिमिटेड महेश्वर नन्द कौशल, निदेशक डीआईएनः 02881972 दिनांक: 02.11.2020

र्डस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1984PLC018610 पंजीकत कार्यालयः डी-3/2. ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 वेबसाइटः www.ebl.co.in

ई-मेलः secretarial@ebl.co.in,

contact@ebl.co.in

सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम के अनुसार, एतद्वारा सुचना दी जाती है कि 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कम्पर्न के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा कार्यसची क अन्य मदों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए मैसर्स ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को 11:30 बजे पूर्वाहन इसके पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी। कथित सूचना तथा कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय

परिणाम www.ebl.co.in, www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड रिचा मल्होत्रा

स्थानः नई दिल्ली [कम्पनी सचिव ए तिथि: 02.11.2020 अनुपालन अधिकारी न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम

टॉवर-॥, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 दुरभाष: 011-69999350 **CIN**: L67120DL1984PLC018800

Email ID:

neweraleasingfinance@gmail.com

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन

47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने साथ में सीमित समीक्षा हेत् न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड ("दि कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-॥, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 में मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को सायं 05:00 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।

कृते न्य ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-रास बिहारी शर्मा तिथि: 03/11/2020 (प्रबन्ध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

DIN:06804500

बी एन्ट्र आर B AND R

#### मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड (CIN: L24231HP1984PLC006028)

पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ़ रोड, निकट बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205 टेलीफोन : +91-1795-266401-03, फंक्स : +91-1795-244593 वेबसाइट : www.morepen.com, ई-मेल : investors@morepen.com

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015, यथा संशोधित, के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में, अन्य तथ्यों के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त हुई तिमाही एवं छमाही के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखन हेत् कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 09 नवम्बर, 2020 को आयोजित होना निर्धारित है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड http://www.morepen.com द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड http://www.nseindia.com बीएसई लिमिटेड http://www.bseindia.com कृते मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

दिनांकः 02.11.2020 (विपुल कुमार श्रीवास्तव) स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः सी-४, ढिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

वेबसाइट: www.ircon.org, ई-मेल: info@ircon.org सीआईएनः L45203DL1976GOI008171

सेबी (सुचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित अलेखापरिक्षित वितीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। यह सूचना कंपनी के वेबसाइट www.ircon.org एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

फोन: +91-11-29565666, फैक्स: +91-11-26854000,

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी दिनांकः 02.11.2020

सार्वजनिक सचना [भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)] प्रेमसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन के हितधारकों के ध्यानार्थ

प्रेमसंस

भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम विनियम 31(2) के अनुसार एतहारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि परिसमापक हारा तैयार की गयी प्रेमसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन के हितधारकों की सूची 28.10.2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ III, नई दिल्ली के पास ई-फाइल कर दी गयी है। चुंकि कॉर्पोरेर देनदार की कोई क्रियात्मक वेबसाइट नहीं है अतः हितधारकों की सुधी http://embeeip.com फ देखी जा सकती है। मोहित चायल

आईपी पंजीकरण सं.

की चेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध हैं।

मैससं प्रेमसंस सुपर स्टील प्राइधेट लिमिटेड के मामले में IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949

एससीओ-2935-36, लेवल-1, सेक्टर-22C, चंडीगढ़ पंजीकृत ई-मेल आईडी : ipservices@embeegroup.in विधि : 02,11,2020 पत्राचार ई-मेल आईडी स्थान : चंडीगढ़ ip.premsonssupersteel@gmail.com

सीआईएन: U21012UP1988PL0007871 पंजीकृत कार्यालयः 4.5 किमी, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश ई-मेलः shakumbhripaperegmall.com I सम्पर्क नं.: 9548493030 वेबसाइट : www.shakumbhrlpulp.com एतद्वारा सुचना दी जाती है कि सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनिवम 47 वे

शाकम्भरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड

निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को दोपहर 1.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर इस उद्देश्य से भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (इनसाइंडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार इनसाइंडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता के तहत कवर निदेशक/अधिकारी/निर्दिष्ट कर्मचारी/प्रमोटर हेतु ट्रेडिंग थिंडो पहले ही उपर्युक्त बोर्ड बैठक के समापन के पश्चात 48 पण्टे तक वन्द की जा चुकी है। पुनः इस सुचना के विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.shakumbhripulp.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज

ञाकुम्भरी पत्य एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड

आयय अग्रवाल

तिथि: 30.10.2020 डीआईएनः ०६४४ १६६४ परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 के अंतर्गत

परिसमापक का पता: 110/एस 2, सरस्वती ब्लॉक, डी-6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 ईमेल आईडी: liquidator.gths@gmail.com | मो.: 9810273888 दिवाला तथा दिवालिया सं 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमनों के अंतर्गत आम जनता को सुचित किया जाता है कि मै. जीटीएचएस रिटेल्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) जो परिसमापन सम्पदा का भाग है, की निम्न परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की परिसमापक द्वारा बिक्री की जायेगी। परिसम्पत्तियों की बिक्री वेबसाईट https://eauction.123done.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ऑजिओ एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी (123done.in) के द्वारा ई-नीलामी द्वारा की जायेगी।

जीटीएचएस रिटेल्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

ı	01/1	e ususu sasa sasa u			
I	क्रम		आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि मूल
I	सं.	संक्षिप्त विवरण	( आईएनआर )	( आईएनआर )	(आईएनआर में
	1.	ह्युण्डई ग्रैण्ड i10 स्पोर्ट्ज 1.2 ए/टी, बीएस IV पेट्रोल इंजिन, कलर-वाइन रेड; कि.मी. रन-35, 606, वर्ष 2014, बसंत कुंज, नई दिल्ली में		27500/-	2500/-
	2.	नोएडा (उ.प्र.) में कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर एवं फिटिंग्स जिसमें शामिल हैं कम्प्यूटर, प्रिन्टर, सर्वर सिस्टम, विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूपीएस, वाटर कूलर, स्प्लिट एसी, बैटरी रैक, कम्प्यूटर टैबल, वुडन काउन्टर्स, ड्रेसिंग लाईट आदि		6000/-	1000/-
I	3.	नोएडा (उ.प्र.) में इन्वेन्टरी (महिलाओं का रेडीमेड परिधान)	14100/-	1000/-	100/-

**निरीक्षण की तिथि:** 5 नवम्बर, 2020 से 9 नवम्बर, 2020 (12 बजे दोप, से 4.00 बजे अप.) परिसमापक र्क

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि: 10.11.2020 के 6.00 बजे अप. तक **ई-नीलामी की तिथि एवं समय**: 11.11.2020, 3.00 बजे अप. से 5.30 अप. (5 मिनट के असीमित विस्ता

निरीक्षण के लिये सम्पर्क व्यक्तिः श्री शेखर सिंह, मोबाईल नं. 9711522275 (उपरोक्त ईमेल आईडी पर परिसमापक को पर्व सचना के साथ) बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं: 1. ई-नीलामी बिना किसी वारंटीज तथा क्षित पूर्ति के ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'', ''जो कुछ भी वहां है'' तथा ''उपचार-रहित आधार'' पर आयोजित की जायेगी।

2. बोली दस्तावेजों को उपरोक्त ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा परिसमापक के पास अथवा ऊपर वर्णित पते पर परिसमापक के पास हार्डकॉपी द्वारा जमा किया जायेगा जिसे निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त समय–सीमा में जमा किया जायेगा। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ बोली प्रपत्र मै. ऑजिओ एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी (123done.in) की वेबसाईट अर्थात् https://e-auction.123done.in से डाउनलोड की जा सकती

तिथिः 02.11.2020 रमित रस्तोगी. परिसमापक स्थानः नई दिल्ली पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00297/2017-18/11032

ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इण्डिया) लि. (भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन नं. U27310WB1920GOI003601 "कांकरिया सेंटर", (4था एवं 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, संसाधन सम्पन्न एवं अनुभवी पार्टियों से दो पार्ट सिस्टम में मद दर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं:

प्रमुखाईपीत्स्या मं प्रस्तात जमा

निविदा आमन्त्रण सूचना (नि.आ.सू.)

20.1	काय का ।पपरण	एगजाइपापपूर स.	प्रस्ताय जना	
सं.		तथा होस्टिंग की	करने की अन्ति	
		तिथि	तिथि	
1.	जीएसीएल, दहेज, गुजरात की 10,000	B&R /	16.11.2020	
	टीपीए हाइड्रेजाइन हाइड्रेटेड परियोजना हेतु	MSP/61016/	को 5.00 बजे अप	
	सिविल एवं संरचनात्मक कार्यों के लिए	GACL/	तक	
	लोडिंग, अनलोडिंग से ब्लास्टिंग/पेंटिंग	NIT/STR/01		
	शेड, इरेक्शन साइट आदि तक सहित	दिनांक :		
	फैब्रिकेशन तथा 45.0 मीटर ऊंचाई तक	02.11.2020		
	इरेक्शन के कार्यान्वयन हेतु लेबर			
	कंट्रैक्टर(रों) की नियुक्ति।			

कार्य का विवरण

संसाधन

http://www.bridgeroof.co.in से निविदा डाउनलोड कर सकते हैं संयोजन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, कम्पनी की वेबसाइट http://www.bridgeroof.co.in पर ही अपलोड किये जायेंगे।

ठेकेदार

सम्पन्न

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC059674 Regd. Office: 100A/1 Right wing, the capital court ground floor, Shopping centre, Munirka-III New Delhi 110067 E-mail: accounts@gogiacap.com Website: www.gogiacap.com

NOTICE Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the company is scheduled to

be held on Tuesday 10th November, 2020 at 3.30 pm at its registered office to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the second Quarter ending on 30th September, 2020 and any other matter with the permission of the chair. The said notice can be accessed on the website of the company at www.gogiacap.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bse.com

For Gogia Capital Services Limited Place: Delhi SATISH GOGIA Date: 02.11.2020 Managing Director

CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN No.: L26940DL1991PLC044520 Regd.Off.: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur,

Tel.: +91-0120-4214258 Email ID.: cmpsec@cclil.com, Website: www.evocreteindia.com **NOTICE** Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

New Delhi - 110033

Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020 at the Registered Office of the Company at M-4, Gupta Tower, B1/1, Commercial Complex, Azadpur New Delhi-110033 inter-alia to consider an approve the Un-Audited Financial Results of the company for the guarter and half year ended September 30, 2020.

of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Compan (www.evocreteindia.com). For CCL International Limited

Pradeep Kuma

The said notice is also available on the website

**Company Secretary** Place: New Delhi Date: 02.11.2020 M. No. A5097 **BRAND REALTY** 

**SERVICES LIMITED** 

Web: http://www.brandrealty.in

Regd. Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 Landline: (91)-11-22755819 Corp.Office: F6/18, Plot No. D-6, Wave Silver Tower, Sector-18, Noida-201301 (UP CIN: L74899DL1995PLC064237

E-Mail:kamal@brandrealty.in NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to साथ पठित विनियम 29 के अनुसार 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेत् अन्य बातों के साथbe held on Wednesday, 11th November, 2020 साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित विचीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन करने तथा रिकार्ड करने के लिए कम्पनी वे at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-Delhi - 110091, to consider and approve inter-alia, the unaudited Standalone Financia Results of the Company for the second quarte

> Company's website www.brandrealty.in and of the Stock Exchange website www.bseindia.com By Order of the Board For Brand Realty Services Ltd.

and half year ended 30th September, 2020.

The said notice may be accessed on the

Kamal Manchanda Whole time Director Date: 02.11.2020 Din No.: 00027889 Place: Delhi

वेलियंट कॉम्युनिकेशंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 71/1 शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 सीआईएनः L74899DL1993PLC056652

सूचना भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकृटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 के अनुसरण में एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा

अनुमोदन किए जाएंगे। कृते वेलियंट काम्युनिकेशंस लिमिटेड मनीष कुमार स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02.11.2020 कंपनी सचिव

हावर्ड होटल्स लिमिटेड पंजी. कार्या.: 20, मौर्या कॉम्प्लैक्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 कॉर्पो. कार्यालयः होटल हावर्ड प्लाजा. फतेहाबाद रोड. आगरा-282001 (उत्तर प्रदेश) CIN: L74899DL1989PLC038622

Ph: 0562-4048600, Fax: 0562-4048666

Email: cs@howardhotelsltd.com सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद्द्वार सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एव बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. आगरा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाए जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाई के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन बातों के साथ विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। इच्छुक बोलीदाता बोली जमा करने हेतू अधिक विवरणों के लिये श्री शेखर सिंह (मो. नं. 971522275) के सम्पर्क यह जानकारी तथा आगे विवरण कंपनी की वेबसाईट र्थात www.howardhotelsltd.com तथा स्ट

एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com

हावर्ड होटल्स लिमिटेड के लि एन.एन. मित्तल (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तिथि: 2 नवम्बर, 2020 DIN: 0153310

MAAN पंजीकृत कार्यालय : 4/5, प्रथम तल, आसफ अली

रोड, नई दिल्ली-110002 : L30007DL2003PLC214485 दरभाष : 40081800 ई-मेल : info@maanaluminium.in वेबसाइट : www.maanaluminium.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन तथा रिकार्ड करने और अन्य कार्यसची मदों के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को 12.30 बजे अपराहन 4/5, प्रथम तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 पर आयोजित की

पुनः कम्पनी की प्रतिभूतियों के आन्तरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनसार कम्पनी के समस्त निदेशकों/अधिकारियों/नामित कर्मचारियों/निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभृतियों में संव्यवहार न करने हेतु ट्रेडिंग विंडो मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2020 से दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द रहेगी

यह सचना कम्पनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है। कृते मान एल्युमिनियम लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 02.11.2020

CIN: L65993DL1980PLC010636

दिनांक : 02.11.2020 रथान : नई दिल्ली

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं०, 2050 से 2052, दुसरा तल, प्लाजा-||, सेंटल स्ववायर, 20, मनोहर लाल खराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली-110006 CIN: L74899DL1889PLC000004

सेबी (लिरिटंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरगेंट्स)

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट

राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) TRITES

सेबी (सुचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 29 के साथ पठनीय विनियम 47 के इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम, 2015 ("द कोड") के अनुरूप निर्मित

कंपनी सचिव एवं

अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 02.11.2020 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

<sup>®</sup>रेस विकास विजय सिमिटेड

कंसल्टेंट से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। तकनीकी विवरण/ दस्तावेज सीईसी की वेबसाइट www.cec.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।

www.readwhere.com

अनु अग्रवाल

कम्पनी सचिव